

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2016—पौष 30, शक 1937

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. एफ-6-2-2013-सात-3-222.—राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शायी तहसीलों को रबी की औसत बुवाई प्रतिवेदन के आधार पर सूखा प्रभावित तहसील घोषित किया जाता है. यह सूचना वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है:—

अनुसूची

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	तहसील का नाम (3)
1.	अशोकनगर	1. अशोकनगर, 2. नईसराय, 3. शादोरा
2.	सिवनी	1. बरघाट
	कुल योग . .जिले-02	तहसीलें—04

No. F 6-2-2013-VII-3 (Part)-222.—On the basis of Rabi reports (Average of Rabi sowing reports) the State Governments hereby, recognize the following Tehsils drought affected as shown in column in (3) of Schedule given below. This notice is being published for wide publicity and information to general public at large:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Tahsils (3)
1.	Ashoknagar	1. Ashoknagar, 2. Nai Saray, 3. Shadoura.
2.	Seoni	1. Barghat
	Total . .Districts-02	Tehsils-04

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.